



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5—मार्च 11, 2011 (फाल्गुन 14, 1932)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5—MARCH 11, 2011 (PHALGUNA 14, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2011

सं. आरएस/3/1/(1)/2011/14-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री अनिल कुमार सैनी, समिति अधिकारी को 31 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस/3/1/(1)/2011/15-कार्मिक--श्री बसन्त नंद, जिन्हें पहले दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस-3/1/1/2009/105-कार्मिक द्वारा स्वस्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में

विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 15 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2011

सं. एफ-6(2023)/2007-प्रशा.-I--भारत सरकार, अफगानिस्तान सरकार और यूएनडीपी के मध्य हुए त्रिपक्षीय करार में राष्ट्रीय संस्थान निर्माण कार्यक्रम (एनआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, अफगानिस्तान सरकार में क्षमता विकास सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप, डॉ. पी. सी. मिश्रा, आईएसएस के एनएफएसजी अधिकारी और निदेशक, योजना आयोग

अफगानिस्तान सरकार में कार्य-भार ग्रहण करने हेतु दिनांक 17 जनवरी, 2011 (अपराह) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किए जाते हैं।

2. उक्त प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित कार्यावधि पूर्ण होने पर, डॉ. मिश्रा आगे की तैनाती हेतु आईएसएस संवर्ग अर्थात् सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में रिपोर्ट करेंगे।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए-12025/13/2009-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जनवरी 2011 के पत्रांक 7/5/2010ई.ओ. (एस.एम.2) के तहत सूचित मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए तथा उनके मूल कैडर अर्थात् पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के बाद उक्त पद का पदभार संभालने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री पवन कुमार अग्रवाल, आई.ए. एस. (प. बं. : 85) को योजना आयोग में सलाहकार (शिक्षा) के जी.सी. एस. पद पर वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/- में रु. 10,000/- के वेतन बैंड के साथ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 17 फरवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अगले पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2011

सं. एफ-6(1472)/91-प्रशा.-I (खंड-III)--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 2011 के आदेश संख्या 13016/02/2010-आईएसएस के अनुसरण में, श्री निर्मल सिंह, आईएसएस के एसएजी अधिकारी ने वेतन बैंड-4, रु. 37,000--76,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 27 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से योजना आयोग में सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 फरवरी 2011

सं. ए-32013/01/2009-प्रशा.-3--राष्ट्रपति जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2010 के का. ज्ञा. सं. 5/25/2010-सीएस-II(ए) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के श्रेणी 'ग' आशुलिपिकों को पदोन्नति जोन के वरीयता कोटे के तहत आशुलिपिक श्रेणी 'क एवं ख' (आमेलित) की चयन सूची वर्ष 2008 की सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, इस आयोग के नियमित आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद पर कार्यरत, श्रीमती शोभा रानी अरोड़ा को योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) पद पर नियमित आधार पर पी.बी.-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के वेतन ढांचे में दिनांक 20.12.2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी 2011

सं. ए-19011/73/11-यूआईडीएआई--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2011 के पत्र संख्या-7/10/2010-ईओ (एस एम-1) और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 11.02.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-12022/02/2005-स्थापना-I द्वारा सूचित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री एम. एस. सीतारामण ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय दिल्ली में 37,400--67,000/- रुपये के वेतन (बैंड-4) + 10,000/- रुपये के वेतन ग्रेड में अपनी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.01.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 15.02.2011 की पूर्वाह्न से उपमहानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरूण कुमार सरकार, उप निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2011

सं. ए-12026/5/2000-प्रशा.I (वि.वि.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 फरवरी, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-के. सचि. I (डी) के द्वारा वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनका नाम सम्मिलित कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय में उप निदेशक के पद पर कार्यरत, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री जोस टॉमस को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की नामावली में उप सचिव (के.स.से.) के पद पर दिनांक 04 फरवरी, 2011 की पूर्वाह्न से नियमित आधार पर शामिल कर लिया गया है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

सं. ए-12025/2/2009-प्रशा.I (वि.वि.)--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर, राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में स्थायी सहायक (विधि) श्री नागा श्री वेंकटा सत्य कृष्णा बंगारराजू भूपतिराजू को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में रुपए 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 + रु. 4,800/- (रु. 7,500--250--12,000/- का पूर्व संशोधित वेतनमान) के ग्रेड वेतन में अधीक्षक (विधि) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 08 फरवरी, 2011 की पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी. एन. एस. वी. एस. के. बंगारराजू दिनांक 08 फरवरी, 2011 से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2011

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा.1(वि.का.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (मुंबई पीठ) के ओ.ए. सं. 561/2008 में दिनांक 20.04.2010 और दिनांक 06.05.2010 के आदेशों के अनुसरण में तथा संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर, वर्तमान में अपर विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री एच. पी. चतुर्वेदी की वेतन बैंड-4, रु. 37,400--67,000/- में ग्रेड वेतन रु. 8,700/- सहित अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-2) के पद पर प्रोन्नति को विगत दिनांक 11.07.2007 से लागू करते हैं।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार संवर्ग के ग्रेड-II के वर्ष 2007-08 के पैल में श्री एच. पी. चतुर्वेदी का नाम श्री एस. के. डुल्लो के नाम (क्रम सं. 2) के नीचे और श्री जी. जयरामलु के नाम (क्रम सं. 3) के ऊपर क्रम सं. 2-ए पर रहेगा। इस विभाग की दिनांक 07.08.2007 की अधिसूचना सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.) में उपर्युक्त संशोधन किया गया है।

3. इस विभाग की दिनांक 01.10.2010 श्री अधिसूचना सं. ए-32012/1/2010-प्रशा. I (वि.का.) में क्रम सं. 1 पर से श्री एच. पी. चतुर्वेदी, अपर विधि सलाहकार का नाम हटा दिया गया है।

एम. के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2011

सं. ए-32014/2/2008-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 के का. ज्ञा. सं. 5/25/2010-सीएस-II के तहत जोनिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (समामेलित) की वर्ष-2008 की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, नीचे उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीखों से इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड (पी.बी.-2), 9,300--34,800/- रु. में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन सहित आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (समामेलित) में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	अभी तक जिस संवर्ग में कार्यरत थे	इस विभाग में कार्यग्रहण करने की तारीख
(क)	श्री बी. के. सूट	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	07.02.2011
(ख)	श्री जितेन्द्र कुमार	योजना आयोग	02.02.2011

2. ऊपरलिखित अधिकारियों की आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (समामेलित) के रूप में नियुक्ति इस विभाग में उनके कार्य ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए 'परीक्षण' आधार पर होगी।

आशा सोय, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2011

सं. आई-14011/9/2010-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 08.02.2011 को चयन समिति की दिनांक 30.11.2010 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2009 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड संवर्ग में वर्ष 2009 में दो मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तराखंड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:--

चयन सूची-2009

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
श्री/श्रीमति/कुमारी	
1. विजय कुमार सिंह कार्की	28.09.1957
2. बिमला गुंजियाल	15.05.1965

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/9/2010-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखंड संवर्ग प्रदान करते हैं:--

चयन सूची-2009

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
श्री/श्रीमति/कुमारी	
1. विजय कुमार सिंह कार्की	28.09.1957
2. बिमला गुंजियाल	15.05.1965

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 फरवरी 2011

सं. 14046/34/1998-यूटीएस-I--राष्ट्रपति, अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी श्री जे.पी. सिंह को अखिल भारतीय सेवा

(मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(2) के अनुसार 10 फरवरी, 2011 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करती हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2011

सं. I-11014/9/2006-आईपीएस-IV--भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जम्मू-कश्मीर और बिहार की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री पंकज कुमार दारद, आईपीएस (जम्मू एवं कश्मीर : 1995) को अत्यधिक कठिनाई के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर से बिहार के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में स्थानांतरित करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2011

सं. 22012/14/2005-अ.भा.से.-I--माननीय कैंट चण्डीगढ़ बेंच दिनांक 28 मई, 2010 के ओ ए सं. 989/सीएच/2009, तथा दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा दिनांक 4 फरवरी 2011 की अवमानना याचिका सं. 130/2010 तथा पहले के समसंख्या आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2010 के आंशिक संशोधन के, दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन 1955 के नियमन 9 के उप नियमन 1 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 25.02.2005 से, अर्थात् उस तिथि से जिससे उनकी तत्काल कनिष्ठ श्रीमती अमृता अटवाल नियुक्त की गई थी, श्री हंस राज गांगर (जन्म तिथि 16.01.1946) को पंजाब भारतीय प्रशासनिक सेवा की चयन सूची 1998 में उनका नाम शामिल होने पर, वास्तविक वेतन, पेंशन, उपदान, वरिष्ठता, सुपर समयमान इत्यादि सभी अनुवर्ती लाभों के साथ, 1.2.2004 से 24.2.2005 की अवधि तक नियमित करने से, उनको देय सेवानिवृत्ति लाभों के साथ, जो पहले अकार्य माना गया था तथा 25.2.2005 से 22.1.2006 की अवधि के वेतन तथा बकाया के साथ, आई ए एस कैडर में नियुक्त करते हैं।

यह 19 जनवरी 2006, 10 नवम्बर 2006 तथा 18 अक्टूबर 2010 को जारी आदेश का अधिक्रमण करता है।

(राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनकी ओर से)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 2011

सं. 7/पीबी-II/2011--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड-I के अधिकारी श्री दिलीप कुमार दास (जन्म तिथि : 01.01.1951), 31 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो गए।

नीरज कुमार जयसवाल, प्रशा. अधि. (पीबी-II)

सं. 6/पीबी-II/2011--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस मंत्रालय के भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड-I के अधिकारी श्री जीवा नन्द (जन्म तिथि : 28.12.1950), 31 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो गए।

नीरज कुमार जयसवाल, प्रशा. अधि. (पीबी-II)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2011

सं. 06 (फा.सं. ए-38013/17/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) के अधिकारी श्री जुगल किशोर, दिनांक 31 जनवरी, 2011 (अपराह्न) से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. कं. मोहन्ती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2011

सं. 11 (फा.सं. ए-19011/5/2008-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री के. जोस सिरियक, भारतीय राजस्व सेवा (केरल : 77), अपर सचिव (राजस्व) को दिनांक 01.02.2011 से और अगले आदेशों तक, उनके द्वारा धारित पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करने पर उन्नत करके स्वस्थाने आधार पर सचिव के पद और वेतन में अर्थात् 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में विशेष सचिव, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2011

सं. 2(ए-19011/2/2011-ई. I)--राष्ट्रपति द्वारा श्री मुकेश जैन, आईपीएस (म.प्र. : 89) को दिनांक 21 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से

पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्री के निजी सचिव बने रहने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड (पीबी-4) जमा 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में निदेशक स्तर पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) के निजी सचिव के पद पर ("कूलिंग ऑफ" अपेक्षा में ढील देते हुए) नियुक्त किया जाता है।

एस. के शर्मा, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2011

सं. ए-45011/2/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस-II, दिनांक 11.01.2011 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित समूह 'ग' आशुलिपिकों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर 30.06.2011 तक या नियमित आधार पर उक्त पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले होगा पूर्णतः तदर्थ आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, संवर्ग में आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में (पे बैंड-2, 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,800/- रु.) नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	तैनाती
1.	श्री अनूप कुमार महाजन	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
2.	सुश्री सुनीता	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
3.	श्री पी.सी. शर्मा	भारी उद्योग विभाग
4.	श्री टी.ए. अब्राहम	भारी उद्योग विभाग
5.	श्री संजय नारंग	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
6.	श्री एम.एस. विश्वनाथन	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7.	श्री सुनील कुमार	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
8.	श्रीमती सुरेन्द्र जीत कौर आनंद	लोक उद्यम विभाग
9.	श्री के.ई. मोहनन	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

समूह 'क' और 'ख' (विलयित) निजी सचिव के पद पर उक्त अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे अधिकारी को उक्त पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (विलयित) के पद में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा और यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है, जोकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.05.2006, 01.03.2007 तथा 09.08.2007 में निर्धारित शर्तों के अध्वधीन होगी।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2011

सं. ए-32011/01/2011-मा.सं. II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/21/2010-सीएस-II के अनुसरण में श्री एस. सुरेश कुमार को दिनांक 27.01.2011 (पूर्वाह्न) से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे-बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. के साथ ग्रेड पे- 4,800/- रु. में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपिक ग्रेड 'ए और बी' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.06.2011 तक अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ए और बी' (विलयित) के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

3. यह तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/21/2010-सीएस-II में दी गई शर्तों के अधीन होगी।

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2011

सं. 12/7/2009-एसओ--राष्ट्रपति, श्री आलोक परती, भा.प्र.से. (असम : 77), को कोयला मंत्रालय में स्वस्थाने उन्नति के आधार पर विशेष सचिव के रूप में 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में 01 फरवरी, 2011 से नियुक्त करते हैं।

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव (कोयला)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2011

सं. ए-38012/6/2010-एसआरए--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह 'क') के श्री रिछ पाल सिंह, सहायक निदेशक (एस एण्ड आर) (तदर्थ) अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जनवरी 2011 के अपराह्न से सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस. जानकीरमन, उप सचिव

सं. ए-38012/5/2010-एसआरए--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह 'क') के श्री जे. सी. पाठक, सहायक निदेशक (एस एण्ड आर) (तदर्थ) अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जनवरी 2011 के अपराह्न से सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस. जानकीरमन, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 फरवरी 2011

सं. 2-18/2009-मात्स्यिकी प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री बालनायक बनावत को 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड (पीबी-3) और 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 01.12.2010 (पूर्वाह्न) से भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई में सर्विस इंजीनियर (मैकेनिकल) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अनुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2010

सं. ए-22012/2/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 05/03/2010-सीएस-आई (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति, सीएसएस के निम्नलिखित अधिकारियों, को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से ग्रामीण विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	सीएसएल सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	6548	श्री धनंजय कुमार सिंह	03.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	6406	श्री नंद किशोर जोशी	03.06.2010 (अपराह्न)

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2010

सं. ए-22012/2/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 05/03/2010/सीएस-आई (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार मक्कर (सीएसएल सं. 6570) सीएसएस के अधिकारी, को दिनांक 04 जून, 2010 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

सं. ए-22012/2/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 05/03/2010/सीएस-आई (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री राम वर्मा के. (सीएसएल सं. 6401) सीएसएस के अधिकारी, को दिनांक 09 जून, 2010 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास

मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2011

सं. ए-22012/03/2010-स्थापना-I--वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 08.12.2010 के आदेश सं. टी-42/2010 (फाइल सं. 13016/4/2010-आईईएस) के अनुसरण में राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा 2009 बैच के, श्री जगदीश कुमार (कनिष्ठ समयमान अधिकारी) को दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2010

सं. ए-22012/03/2010-स्थापना-I--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 2010 के आदेश सं. पी-6/2010 (फाइल सं. 13016/4/2010-आईईएस) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री माणिक चन्द्र पंडित (भारतीय आर्थिक सेवा) को 01 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 14 सितम्बर 2010

सं. ए-12022/02/2010-स्थापना-I--राष्ट्रपति, इस समय ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सलाहकार (वानिकी) के पद पर कार्यरत श्री चरनजीत सिंह, भारतीय वानिकी सेवा (म. प्र. : 90) को 09 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से 20.02.2015 तक (अर्थात् प्रतिनियुक्ति संबंधी 7 वर्ष की अनुमत संयुक्त अवधि तक) अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-22012/02/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के आदेश सं. 05/03/2010/सीएस-आई (यू) के अनुपालन में राष्ट्रपति, श्री राम राज मीणा (सीएसएल सं. 6835) सीएसएस के अधिकारी, को दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के अपराह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 28 सितम्बर 2010

सं. ए-32013/01/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों (सीएसएस

के चयन ग्रेड) को 21 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से निदेशक (सीएसएस का वरिष्ठ चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करती हैं :--

- (i) श्री बी. एस. नेगी
- (ii) श्री टी. श्रीनिवास

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2010

सं. ए-38012/01/2010-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप, इस मंत्रालय में श्री एस. के. ठकुरेला, सहायक निदेशक दिनांक 30.09.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. ए-32013/01/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री ए. के. सिंह, उप सचिव (सीएसएस चयन श्रेणी), जो इस समय राज्य मंत्री (आरडी-पीजे) (श्री प्रदीप जैन) के निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 21.09.2010 से ठीक निचला नियम (Next Below Rule) के अंतर्गत प्रोफार्मा आधार पर निदेशक (सीएसएस की वरिष्ठ चयन श्रेणी) के पद पर नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2010

सं. ए-38013/11/2010-स्थापना-I--इस मंत्रालय में श्री सुरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी ने दिनांक 01.12.2010 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-38013/03/2010-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप इस मंत्रालय में श्री के. डी. पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी दिनांक 30.11.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 9 दिसम्बर 2010

सं. ए-12022/01/2010-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री यज्ञेश सुन्दर द्विवेदी, भारतीय रक्षा अभियंता सेवा (1984) को दिनांक 30 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले 5 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2010

सं. ए-12022/07/2010-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्रीमती इंदु शर्मा, भारतीय वन सेवा (उत्तर प्रदेश : 90) को 01 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2011

सं. ए-38013/05/2010-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री कृष्ण लाल, सांख्यिकी अधिकारी दिनांक 31.01.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-38013/06/2010-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री रामजीत ओझा, सहायक निदेशक (रा.भा.) दिनांक 31.01.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2011

सं. ए-19012/4/2006-स्था.--श्रीमती कृष्णा कौल, निजी सचिव, पंचायती राज मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु पाने के उपरांत 28 फरवरी, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवामुक्त हो रही हैं।

एल. हार्किप, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. ए-12024/2/2009-स्था-III--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/25/2010-सीएस-II (ए) के अनुसरण में राष्ट्रपति योजना आयोग के सीएसएसएस काडर की श्रीमती नीरा कपूर, वैयक्तिक सहायक को 02.02.2011 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के काडर में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय गुप्ता, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2011

सं. ए-19011/2/2010-स्था-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 फरवरी, 2011 के आदेश सं. 4/2/2010-सीएस.आई (डी)

के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संस्कृति मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अवर सचिव, श्री चंद्र प्रकाश को दिनांक 1 फरवरी, 2011 (पूर्वाह्न) से संस्कृति मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2011

सं. 10-2/2009-लिब. (खंड-II) (पार्ट.)--मंत्रिमंडल के दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 के पत्र सं. 4/4/2010-ईओ (एसएम-II) के जरिए दिए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में निदेशक के पद को 'महानिदेशक' के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है।

वर्तमान पदधारी, प्रो. स्वप्न कुमार चक्रवर्ती का पदनाम, भारत के राजपत्र की दिनांक 20 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 10-2/2009-लिब. (खण्ड-II) में यथा अधिसूचित निबंधनों और शर्तों के अनुसार 'महानिदेशक' किया जाता है।

टी. कुमार, संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. 12-5/2007/आई डी-सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जे का निष्कासन) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में और श्री गोपाल कृष्ण द्वारा सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार स्टेडियमों के अलावा दिल्ली में भा.खे.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भा.खे.प्रा. के भवनों, परिसरों, आवासीय व्यवस्थाओं के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण में श्री एस. एस. छाबड़ा (पूर्व सचिव, भा. खे.प्रा.) के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उन्हें सम्पदा अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं। वे अपने वर्तमान कार्य के अलावा सम्पदा अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे।

दिल्ली में भा.खे.प्रा. स्टेडियमों के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में श्री ए. के. अग्निहोत्री, उप सचिव समसंख्यक सूचना दिनांक 2.6.2010 के अन्तर्गत अधिसूचित अनुसार सम्पदा अधिकारी बने रहेंगे।

जी. श्रीधरन, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2011

सं. 11036/13/2009-पी.सी. एंड वी.--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/09/2006-पी.सी. एंड वी., दिनांक 01.07.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 5(1) के अनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 01.07.2010 के कार्यालय आदेश तथा उपरोक्त अधिसूचना की क्र. सं. 10 पर दर्शाए

गए विशिष्ट मामलों के संबंध में श्री असित गोपाल, निदेशक को डॉ. एन. के. घटक, संयुक्त निदेशक के स्थान पर एतद्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री असित गोपाल का सरकारी पता एवं दूरभाष सं. निम्नानुसार है :--

श्री असित गोपाल,
निदेशक,
कमरा सं. 401, "बी" विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
(दूरभाष सं. 23070508)

3. उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 10 पर दर्शाया गया डॉ. एन. के. घटक, संयुक्त निदेशक का नाम सेवामुक्ति के कारण हटया गया समझा जाए।

जे. के. पोपली, निदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. ए-32013/11/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री एस. सी. शर्मा, सीएसएस (79) को दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक (सी एंड ए) (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर 37,400--67,000/- रु. (वेतन बैंड-4) और 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतनमान में 27 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30.4.2016 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 जनवरी 2011

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "ग" के निम्नलिखित आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए या नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित)] के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दूरसंचार विभाग के संवर्ग में वेतन बैंड-2 के 9,300--34,800/- रु. और 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं :--

क्र. सं.	आशुलिपिक ग्रेड "सी" का नाम	अवधि
1	2	3
1.	श्री जवाहर लाल	01.01.2011 30.06.2011
2.	श्रीमती सविता अरोड़ा	01.01.2011 30.06.2011
3.	श्रीमती सरोज कपिला	01.01.2011 30.06.2011

1	2	3
4. श्रीमती बलबीर कौर	01.01.2011	30.06.2011
5. श्री प्रवेश कुमार	01.01.2011	30.06.2011
6. श्री एस. एस. वर्मा	01.01.2011	30.06.2011
7. श्रीमती मीना देवानी	01.01.2011	31.05.2011
8. श्री दासरथी कुमार	01.01.2011	30.06.2011

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इस नियुक्ति से अधिकारियों को उक्त ग्रेड में आमेलन या निजी सचिव ग्रेड आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) से वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

गरवासीस कुलमपल्लिल, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2011

सं. ए-32013/5/2002-प्रशा. I--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित निजी सचिवों की दूरसंचार विभाग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की अवधि को प्रत्येक के नाम के सामने निर्दिष्ट आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं. अधिकारी का नाम	अवधि
1. श्री आर. डी. शर्मा	01.01.2011 से 31.03.2011
2. श्री राजन देवानी	01.01.2011 से 28.02.2011

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूरी तरह तदर्थ आधार पर हैं और इनसे अधिकारियों को इन पदों पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

गरवासीस कुलमपल्लिल, अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2011

सं. ए-32012/1/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एन. राधाकृष्णन, अवर सचिव (सीएसएस) को, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2010-सीएसआई (डी) दिनांक 01.02.2011 के अनुसरण में वर्ष 2010 के सीएसएस की चयन सूची के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.02.2011 (पूर्वाह्न) से 7,600/-रु. के ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. (पीबी-3) के पे बैंड में नागर विमानन मंत्रालय में सीएसएस के उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

शुभा ठाकुर, निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2011

सं. ई(जी.पी.)91/1/59--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के दक्षिणपूर्व रेलवे के कार्मिक विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी श्री बी. एस. एच. राव को 01.11.1985 से उसी रेलवे में भारतीय रेल कार्मिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति का सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

यह अधिसूचना पूर्व जारी किया गया समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.02.1993 के आंशिक आशोधन करते हुए जारी किया जाता है, जिसमें श्री बी. एस. एच. राव को दिनांक 23.07.1992 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किया था।

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 फरवरी 2011

सं. ई(जी.पी.)2008/3/7--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के भंडार विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर 25.03.2010 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आईआरएसएस) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

2009-10 के लिए पैनल

दक्षिण रेलवे

श्री के. एस. भास्कर

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 10 फरवरी 2011

सं. ई(जी.पी.)2008/3/8--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यातायात विभाग के निम्नलिखित 52 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 30.12.2010 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

2009-10 के लिए पैनल

अधिकारियों के नाम

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. फिलिप वर्गीज
2. एल. एम. सैयद
3. एस. डी. सक्सेना
4. जार्ज ईपन
5. एस. के. मिश्रा
6. के. आर. बालासुब्रमनियम

7. एस. रविचंद्रन		3. के. लक्ष्मीनारायणा रेड्डी	
8. के. पी. कृष्णन		4. यू. सत्यम बाबू (अ.ज.जा.)	
9. एन. जी. बोरीकर (अ.ज.जा.)		5. बी. एन. विक्टर बाबू (अ.ज.जा.)	
10. जे. टी. बोकड़े (अ.ज.जा.)		दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	
11. ए. के. तिवारी		1. जे. एन. सबत	
12. जगदीश प्रसाद (अ.जा.)	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	2. एस. एन. मुखर्जी	
13. ई. जी. सदावर्ते (अ.ज.जा.)	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	दक्षिण रेलवे	
पूर्व रेलवे		1. संजीव वरप्रसाद (अ.ज.जा.)	
1. अजय कुमार साहू		2. एम. नारायणा स्वामी	
2. अलोकेश रॉय		3. ए. सुन्दर (अ.ज.जा.)	
3. बिश्वजीत चक्रवर्ती		4. गोविन्दप्पाराज (अ.ज.जा.)	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
4. उदय शंकर मंडल (अ.ज.जा.)		5. जार्ज जॉन (अ.ज.जा.)	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
पूर्व मध्य रेलवे		दक्षिण पश्चिम रेलवे	
1. अनिल कुमार बंसल		टी. पी. गणेशा (अ.ज.जा.)	
2. अनिल कुमार सिंह		पश्चिम मध्य रेलवे	
3. राज कुमार (अ.जा.)	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	ए. एस. चन्देल	
पूर्वोत्तर रेलवे		पश्चिम रेलवे	
1. एन. एन. दास (अ.जा.)	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	1. डी. एन. यादव	
2. जवाहर राम (अ.जा.)	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	2. नायर जी. मोहन	
3. एस. के. श्रीवास्तव		3. एम. एल. गडेरिया	
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे		4. रेवत सिंह	
अमल कुमार सिन्हा		5. आर. एस. चटवाल	
उत्तर रेलवे		6. एस. एस. अग्रवाल	
1. डी. एस. भाटिया		7. शरत कुमार (अ.जा.)	
2. सन्त राम		8. पी. के. शर्मा	
3. योगेश कुमार			
4. एस. के. मिश्रा			
5. ए. के. भटनागर			
6. पृथ्वी राम (अ.जा.)	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)		
दक्षिण मध्य रेलवे			
1. के. रत्नाकर राव			
2. एम. वी. कृष्णन			

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 15 जनवरी 2011

सं. ईआरबी-1/2010/2/77--राष्ट्रपति जी, श्री अरूणेन्द्र कुमार, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा, अपर महाप्रबंधक, उत्तर रेल को 31.12.2010 के अपराह्न से रु. 75,500--80,000/- के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (उत्पादन इकाइयां), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2010/2/54--राष्ट्रपति जी, श्री बी. एन. राजशेखर, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा, सलाहकार (योजना), रेलवे बोर्ड को 30.12.2010 के पूर्वाह्न से रु. 75,500--80,000/- के ग्रेड में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2011

सं. ए-32014/1/2009-ई-I (बी)--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/25/2010-सीएस-II (ए) के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) की 2008 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, योजना आयोग की सीएसएसएस अधिकारी श्रीमती सुलीहा पुरुषोत्तमन को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 2.2.2011 (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जनवरी 2011

सं. 151/5/89-प्रशा. I--उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड, हैदराबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने के फलस्वरूप (आंध्र प्रदेश सरकार, सामान्य प्रशासन (विशेष) विभाग आदेश सं. जी.ओ.आर.टी. सं. 189, दिनांक 13.01.2011

के द्वारा) श्री एन बंगारा राजू ने दिनांक 20.01.2011 के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2011

सं. 2/3/2004-स्था. III (एफबीपीई)--राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार पाणी को वेतन बैंड-3 (पीबी-3) 15,600--39,100/- रु. वेतनमान, + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन में एफबीपीएचएसएस, फरक्का बराज परियोजना, जल संसाधन मंत्रालय में 21 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन.के. गुप्ता, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2011

सं. ए-12025/3/2008-आई.आई.एस.--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा 2009 के परिणाम के आधार पर श्री सम्राट बंदोपाध्याय (रैंक सं. 598) को दिनांक 30.08.2010 से 5,400/- रु. ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड में (पूर्व संशोधित वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु.) भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

2. श्री सम्राट बंदोपाध्याय, भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (मीडिया एवं संचार) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

रेनू अरोड़ा, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 17th February 2011

No. RS.3/1(1)/2011/14-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Anil Kumar Saini, Committee Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-, plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 31st January 2011 and until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS.3/1(1)/2011/15-Perl.—Shri Baswa Nand, who was earlier appointed to officiate in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis vide Notification No. RS.3/1/1/2009/105-Perl. dated 30th December, 2009, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 15th February 2011.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th January 2011

No. F.6(2003)/2007-Adm.I—Consequent on his selection for appointment on deputation as Capacity Development Adviser in Central Statistics Organisation, Govt. of Afghanistan under the National Institute Building Programme (NIBP) under the Tripartite Agreement between Govt. of India, Govt. of Afghanistan and UNDP, Dr. P. C. Mishra, NFSG Officer of ISS and Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 17th January, 2011 (A.N.) to join Govt. of Afghanistan.

2. On completion of the approved tenure of the said deputation, Dr. Mishra will report to the ISS Cadre i.e. Ministry of Statistics & Programme Implementation for further posting.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A-12025/13/2009-Adm.I—In pursuance of the ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Communication No. 7/5/2010-EO (SM.II), dated the 27th January, 2011 and consequent upon his assuming charge of the post after being relieved from his

Parent Cadre of Govt. of West Bengal vide their Notification No. 345-PAR(IAS)/5C-24/2010, dated the 15th Feb., 2011, the President is pleased to appoint Shri Pawan Kumar Agarwal, IAS (WB:85) in Planning Commission against a GCS Post of Adviser (Education) in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with a Grade Pay of Rs. 10,000/- on deputation basis for a period of five years w.e.f. the forenoon of 17th Feb., 2011 or until further orders, whichever is earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 27th January 2011

No. F.6(1472)/91-Admn.I(Vol.III)—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/02/2010-IES, dated 17th January, 2011, Shri Nirmal Singh, SAG Officer of IES, has assumed charge as Adviser in Planning Commission in PB-4 of Rs. 37,000—76,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 27th January, 2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 10th February 2011

No. A-32013/01/2009-Adm.III—Consequent upon her nomination for inclusion in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2008 under the Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) vide DoPT's O.M. No. 5/25/2010-CS.II (A) dated the 20th December, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Shobha Rani Arora, a regular Steno Grade 'C' of CSSS as Steno Grade 'A&B' (Merged) in the PB-2, (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) on regular basis in Planning Commission with effect from 20.12.2010 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 17th February 2011

No. A-19011/73/11-UIDAI—In pursuance of approval of the Competent Authority as conveyed by the Department of Personnel & Training vide letter No. 7/10/2010-EO (SM-I) dated 31.01.2011 and M/o Social Justice & Empowerment, New Delhi Office Order No. A-12022/02/2005-Estt.I dated 11.02.2011, Shri M. S. Seetharaman has assumed the charge of Deputy Director General in Unique Identification Authority of India, HQ Delhi w.e.f. 15.02.2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-IV) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- till the date of his superannuation i.e. upto 31.01.2014 or until further orders, whichever is earlier.

ARUN KUMAR SARKAR, Dy. Dir.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 8th February 2011

No. A.12026/5/2000-Admn.I(L.D.)—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2010 vide Department of Personnel and Training's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 1st February, 2011, Shri Jose Thomas, a Grade-I Officer of the Central Secretariat Service and working as Deputy Director in the Directorate General of Supplies and Disposals has been taken on the strength of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice as Deputy Secretary (CSS) on regular basis with effect from the forenoon of 4th February, 2011.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

No. A.12025/2/2009-Admn.I(L.D.)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Naga Sri Venkata Satya Krishna Bangararaju Bhupathiraju, a permanent Assistant (Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Superintendent (Legal) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- (pre-revised scale of pay Rs. 7,500-250-12,000/-) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 8th February, 2011 and until further orders.

2. Shri B. N. S. V. S. K. Bangararaju will be on probation for a period of one year with effect from the 8th February, 2011.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th February 2011

No. A-32012/2/2006-Admn.I(LA)—In pursuance of the orders dated 20.04.2010 and 06.05.2010 in O.A. No. 561/2008 of the Central Administrative Tribunal (Mumbai Bench) and on the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to antedate the promotion of Shri H. P. Chaturvedi now Additional Legal Adviser as Additional Legal Adviser (Grade II of Legal Advisers cadre of Indian Legal Service), in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. the forenoon of the 11th July 2007 and until further orders.

2. Pursuant thereto, in the panel of Grade II of the Legal Advisers cadre of Indian Legal Service for the year 2007-08, the name of Shri H. P. Chaturvedi, will figure at S. No. 2A i.e. below the name of Shri S. K. Dullo (S. No. 2) and above the name of Shri G. Jayaramalu (S. No. 3). This Department's notification No. A-32012/2/2006 dated 07.08.2007 stand modified to that extent.

3. The name of Shri H. P. Chaturvedi, Additional Legal Adviser at serial number 1 of the notification No. A-32012/1/2010-Admn.I (LA) dated 01.10.2010 stands deleted.

M. K. SHARMA, Jt. Secy. & Legal Adviser

New Delhi, the 14th February 2011

No. A-32014/2/2008-Admn.IV(LA)—Consequent upon inclusion to the Select List for the year 2008 of Steno Grade 'A&B' (merged) of CSSS under zoning scheme vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/25/2010-CS.II dated 20th Dec., 2010, the President is pleased to appoint following regular Stenos Grade 'C' in CSSS cadre of respective cadres as Steno Grade 'A&B' (merged) in CSSS Cadre of this Department in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Cadre presently working	Date of joining in this Deptt.
1.	Shri V. K. Soota	Corporate Affairs	07.02.2011
2.	Shri Jitender Kumar	Planning Commission	02.02.2011

2. The appointment of above mentioned officers as Steno Grade 'A&B' (merged) will be on 'trial' basis for a period of two years w.e.f. date of joining this Department.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th February 2011

No. I-14011/9/2010-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 08.02.2011, approved the Select List of the year 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 30.11.2010, containing the names of the following State Police Service Officers of Uttarakhand, towards filling up 2 substantive vacancies during the year 2009 in the IPS Uttarakhand Cadre :—

Select List 2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(Smt./Shri)	
1.	Vijay Kumar Singh Karki	28.09.1957
2.	Bimla Gunjyal	15.05.1965

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/9/2010-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Uttarakhand under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List-2009

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(Smt./Shri)	
1.	Vijay Kumar Singh Karki	28.09.1957
2.	Bimla Gunjyal	15.05.1965

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi-1, the 10th February 2011

No. 14046/34/1998-UTS-I—The President is pleased to permit Shri J. P. Singh, an IAS officer of 1977 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily w.e.f. 10th February, 2011 (FN) in accordance with Rule 16(2) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 22nd February 2011

No. I-11014/9/2006-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Jammu-Kashmir and Bihar, the Central Government hereby transfers Shri Pankaj Kumar Darad, IPS (Jammu & Kashmir : 1995) from Jammu and Kashmir to the IPS Cadre of Bihar on the ground of extreme hardship.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 15th February 2011

No. 22012/14/2005-AIS(I)—In pursuance of directions of Hon'ble CAT Chandigarh Bench dated 28th May, 2010 in OA No. 989/CH/2009, and dated 17th January 2011 and 4th February 2011 in Contempt Petition No. 130/2010 and

in partial modification of earlier Order of even number dated 18th October 2010, the President in exercise of the powers conferred by sub-rule 1 of Rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation 1 of the Regulation 9 of IAS (Appointment by Promotion) Regulation, 1955 and Rule 3 of the IAS (Probation) Rules, 1954 is pleased to appoint Sh. Hans Raj Gangar (D.o.B. 16.01.946) to IAS Cadre of Punjab w.e.f. 25.02.2005, i.e. the date on which his immediate junior Smt. Amrita Atwal was appointed to IAS, on the basis of inclusion of his name in the Select List of 1998 with all consequential benefits in terms of re-fixation of actual pay, pension, gratuity, seniority, super time-scale etc. as per eligibility of the Shri Gangar along with retiral benefits admissible to him by regularizing the period from 01.02.2004 to 24.02.2005 which was earlier treated as dies non and actual salary for the period 25.02.2005 to 22.01.2006 along with arrears.

This supercedes orders of even number issued on 19th January 2006, 10th November 2006 and 18th October 2010.

(By order and in the name of the President).

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st January 2011

No. 7/PB-II/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Dilip Kumar Das (DoB : 01.01.1951), Private Secretary [Grade-I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government Service in the afternoon of 31st December, 2010.

NIRAJ KR. JAISWAL, Admin. Officer (PB-II)

No. 6/PB-II/2011—On attaining the age of superannuation, Shri Jiwa Nand (DoB : 28.12.1950), Private Secretary [Grade-I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government Service in the afternoon of 31st December, 2010.

NIRAJ KR. JAISWAL, Admin. Officer (PB-II)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd February 2011

No. 06 (F. No. A.38013/17/2010-Ad.I)—Shri Jugal Kishore, an officer of the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS), posted as Assistant Director (Official Language) in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st January, 2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. K. MOHANTY, Under Secy.

New Delhi, the 7th February 2011

No. 11 (F. No. A.19011/5/2008-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri K. Jose Cyriac, IAS (KL: 77), Additional Secretary (Revenue) as Special Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the rank and pay of Secretary i.e. in the pay scale of Rs. 80,000/- (fixed), on in-situ elevation basis by temporarily upgrading the post held by him with effect from 01.02.2011 and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 21st January 2011

No. 2(A-19011/2/2011-E.I.)—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Jain, IPS (MP:89) as Private Secretary to Minister of State for Commerce & Industry (Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/-, at Director level in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry (in relaxation of the 'cooling off' requirement) w.e.f. the forenoon of 21st January, 2011 for a period of five years or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110107, the 15th February 2011

No. A-45011/2/2011-E.I.—In pursuance of the orders of the Department of Personnel and Training vide their OM No. 5/8/2006-CS-II, dated 11.1.2011, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following regular Grade 'C' Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service cadre as ad hoc Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS in the cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the scale of pay of Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- on purely ad hoc basis, for the period upto 30.6.2011, or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Posting
1	2	3
1.	Shri Anup Kumar Mahajan	O/o EA
2.	Ms. Sunita	DIPP

1	2	3
3.	Shri P. C. Sharma	D/o HI
4.	Shri T. A. Abraham	D/o HI
5.	Shri Sanjay Narang	DIPP
6.	Shri M. S. Viswanathan	M/o FPI
7.	Shri Sunil Kumar	DIPP
8.	Smt. Surinder Jeet Kaur Anand	DPE
9.	Shri K. E. Mohanan	D/o IPP

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) grade of CSSS and the ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore, which is further subject to the conditions laid down in DOPT's OMs dated 31.5.2006, 1.3.2007 and 9.8.2007.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 7th February 2011

No. A-32011/01/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri S. Suresh Kumar as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2), Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 27.01.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DOPT)'s O.M. No. 5/21/2010-CS.II, dated 31.12.2010.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.06.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DOPT's O.M. No. 5/21/2010-CS.II, dated 31.12.2010.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 14th February 2011

No. 12/7/2009-ASO—The President is pleased to appoint Shri Alok Perti, IAS (AM:77), as Special Secretary in the Ministry of Coal in the scale of pay of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from 1st February, 2011, on in-situ elevation basis.

A. K. BHALLA, Jt. Secy. (Coal)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 31st January 2011

No. A-38012/6/2010-SRA—Sh. Richh Pal Singh, Assistant Director (S&R) (Ad hoc) Group 'A' General Central Services of Department of Food and Public Distribution, will retire from Government Service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 31st January, 2011.

S. JANAKIRAMAN, Dy. Secy.

No. A-38012/5/2010-SRA—Sh. J. C. Pathak, Assistant Director (S&R) (Ad hoc) Group 'A' General Central Services of Department of Food and Public Distribution, will retire from Government Service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 31st January, 2011.

S. JANAKIRAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING
AND FISHERIES)

New Delhi, the 15th February 2011

No. 2-18/2009-Fy(Admn)—The President is pleased to appoint Shri Balanayak Banavat to the post of Service Engineer (Mechanical) (General Central Service Group 'A' Gazetted, non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600–39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.12.2010 (F.N.).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 11th June 2010

No. A-22012/02/2010-Estt.I—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26th May, 2010, the President is pleased to appoint the following Officers of the CSS as Under Secretary of the CSS on ad hoc basis in the Ministry of Rural Development with effect from the dates as indicated against each :—

Sl. No.	CSL No.	Name of the Officer	Date of appointment
		S/Shri/Smt.	
1.	6548	Dhananjay Kumar Singh	03.06.2010 (FN)
2.	6406	Nand Kishore Joshi	03.06.2010 (AN)

S. S. PRASAD, Under Secy.

The 15th June 2010

No. A-22012/02/2010-Estt.I—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26th May, 2010, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Makkar (CSL No. 6570), Officer of the CSS as Under Secretary of the CSS on ad hoc basis in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 4th June, 2010.

S. S. PRASAD, Under Secy.

No. A-22012/02/2010-Estt.I—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 26th May, 2010, the President is pleased to appoint Shri Rama Varma K. (CSL No. 6401), Officer of the CSS as Under Secretary of the CSS on ad hoc basis in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 9th June, 2010.

S. S. PRASAD, Under Secy.

The 3rd January 2011

No. A-22012/03/2010-Estt.I—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. T-42/2010 (F.No. 13016/4/2010-IES) dated 8.12.2010, the President is pleased to appoint Shri Jagdish Kumar (Junior Time Scale Officer), belonging to the 2009 batch of Indian Economic Service to the post of Research Officer in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 20th December, 2010.

S. S. PRASAD, Under Secy.

New Delhi, the 9th September 2010

No. A-22012/03/2010-Estt.I—In pursuance of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's Order No. P-6/2010 (F.No. 13016/4/2010-IES) dated 24th August 2010, the President is pleased to appoint Shri Manik Chandra Pandit (IES), to the post of Assistant Commissioner in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 1st September, 2010.

GEORGE Y., Under Secy.

The 14th September 2010

No. A-12022/02/2010-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Charanjit Singh, IFS (MP: 90), presently working as Deputy Adviser (Forestry) in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development as Director in the same Department with effect from the forenoon of 9th September, 2010 for a period upto 20.02.2015 (i.e. within the combined tenure of 7 years permissible on deputation) or until further orders, whichever event takes place earlier.

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-22012/02/2010-Estt.I—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 3rd September, 2010, the President is pleased to appoint Shri Ram Raj Meena (CSL No. 6835), Officer of the CSS as Under Secretary of the CSS on ad hoc basis in the Ministry of Rural Development with effect from the afternoon of 8th September, 2010.

GEORGE Y., Under Secy.

The 28th September 2010

No. A-32013/1/2007-Estt.I—The President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (Selection Grade of CSS) working in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development as Director (Senior Selection Grade of CSS) with effect from the forenoon of 21st September, 2010 :—

1. Shri B. S. Negi
2. Shri T. Srinivas

GEORGE Y., Under Secy.

The 5th October 2010

No. A-38012/01/2010-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Thakurela, Assistant Director of this Ministry has retired from Government service with effect from 30.09.2010 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

The 11th October 2010

No. A-32013/1/2007-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Singh, Deputy Secretary (Selection Grade of CSS), presently on deputation as PS to MOS (RD-PJ) (Shri Pradeep Jain) as Director (Senior Selection Grade of CSS) on proforma basis, under the Next Below Rule, with effect from 21.9.2010.

GEORGE Y., Under Secy.

The 2nd December 2010

No. A-38013/11/2010-Estt.I—Shri Surender Kumar, Section Officer of this Ministry has taken Voluntary Retirement from Government service with effect from 01.12.2010 (FN).

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-38013/03/2010-E.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri K. D. Pandey, Section Officer of this Ministry has retired from Government service with effect from 30.11.2010 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

The 9th December 2010

No. A-12022/01/2010-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Yagyesh Sundar Dwivedi, Ind. Def. Ser. of Engineers (1984) as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 30th November, 2010 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

GEORGE Y., Under Secy.

The 14th December 2010

No. A-12022/07/2010-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Indu Sharma, IFS (UP: 90) as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 1st December, 2010 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

GEORGE Y., Under Secy.

The 1st February 2011

No. A-38013/05/2010-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri Krishan Lal, Statistical Officer of this Ministry has retired from Government service with effect from 31.01.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-38013/06/2010-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri Ramjit Ojha, Assistant Director (OL) of this Ministry has retired from Government service with effect from 31.01.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 15th February 2011

No. A-19012/4/2006-Estt.—Smt. Krishna Kaul, Private Secretary in the Ministry of Panchayati Raj, will retire from Government service with effect from the afternoon of 28th February, 2011 on attaining the age of superannuation.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th February 2011

No. A.12024/2/2009-E-III—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/25/2010-CS-II (A) dated the 20.12.2010, the President is pleased to appoint Smt. Neera Kapoor, PA belonging to the CSSS Cadre of Planning Commission, as Private Secretary in the

Cadre of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in PB-2 of (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) on regular basis with effect from the forenoon of 02.02.2011.

SANJAY GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 4th February 2011

No. A-19011/2/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 1st February, 2011, the President is pleased to appoint Shri Chandra Prakash, a regular Under Secretary of the Central Service (CSS) in the Ministry of Culture as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Culture on regular basis w.e.f. the forenoon of 1st February, 2011.

VANITA SOOD, Under Secy.

New Delhi, the 10th February 2011

No. F. 10-2/2009-Lib. (Vol-II)(Pt.)—Consequent upon the approval of the Cabinet vide its letter No. 4/4/2010-EO (SM-II) dated 12th October, 2010, the post of Director in National Library, Kolkata is re-designated as Director General.

Prof. Swapan Kumar Chakravorty, the present incumbent is re-designated as Director General, on the same terms and conditions as notified in the Gazette of India of F. No. 10-2/2009-Lib (Voll-II) dated 20th May, 2010.

T. KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(DEPARTMENT OF SPORTS)

New Delhi, the 13th August 2010

No. F. 12-5/2007/ID—In accordance with the provisions of Section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorized occupations), Act, 1971 and consequent upon taking over of Shri Gopal Krishna as Secretary, Sports Authority of India (SAI), Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India is pleased to appoint him in place of Shri S. S. Chhabra (Ex-Secretary, SAI) as Estate Officer in Sports Authority of India with immediate effect for the SAI's Buildings, Premises, Residential Accommodation and Facilities under the jurisdiction of SAI in Delhi other than Stadia. He will discharge his duties as Estate Officer in addition to his present work.

For the SAI Stadia in Delhi, Shri A. K. Agnihotri, Deputy Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports will continue to be the Estate Officer as notified vide communication of even number dated 2.6.2010.

G. SRIDHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th February 2011

No. 11036/13/2009-PC&V—In partial modification of this Ministry's notification No. 11036/09/2006-PC&V dated 1.7.2010, and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Asit Gopal, Director is hereby designated as Central Public Information Officer in place of Dr. N. K. Ghatak, Jt. Director in respect of subject allocated to him vide this Ministry's office order dated 1.7.2010 and the specific subject matters indicated against S. No. 10 of the above said notification.

2. Shri Asit Gopal's official address & Telephone No. is as under :—

Shri Asit Gopal
Director
Room No. 401, 'B' Wing,
Shastri Bhavan,
New Delhi-110115
(T. No. 23070508)

3. The name of Dr. N. K. Ghatak, Jt. Director, since retired, indicated against S. No. 10 in the above said notification may be treated as deleted.

J. K. POPLI, Dir.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 28th January 2011

No. A. 32013/11/2005-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri S. C. Sharma, CSS (79) as Deputy Director General (C&A) (Joint Secretary level) in the Department of Telecommunications, in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of the 27th January, 2011 till the date of his superannuation i.e. upto 30.04.2016 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANIL KUMAR, Dir.

New Delhi-110001, the 27th January 2011

No. A.32014/2/2006-Admn.I—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (merged)] on ad hoc basis in the Pay Band-2 of scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the cadre of Department of Telecommunications for a further

period as indicated below or till regular Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (merged)] become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Steno Grade 'C'	Period
1.	Shri Jawahar Lal	01.01.2011 to 30.06.2011
2.	Smt. Savita Arora	01.01.2011 to 30.06.2011
3.	Smt. Saroj Kapila	01.01.2011 to 30.06.2011
4.	Smt. Balbir Kaur	01.01.2011 to 30.06.2011
5.	Shri Parvesh Kumar	01.01.2011 to 30.06.2011
6.	Shri S. S. Verma	01.01.2011 to 30.06.2011
7.	Smt. Meena Dewani	01.01.2011 to 31.05.2011
8.	Shri Dasarathi Kumar	01.01.2011 to 30.06.2011

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)].

GERVASIS KULAMPALLIL, Under Secy.

The 31st January 2011

No. A-32013/5/2002-Admn.I—The President is pleased to extend the term of appointment of the following Private Secretaries of this Department as Principal Private Secretaries on ad hoc basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Central Secretariat Stenographers' Service cadre of Department of Telecommunications for a further period indicated against each or till regular PPS become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1.	Shri R. D. Sharma	01.01.2011 to 31.03.2011
2.	Shri Rajan Dewani	01.01.2011 to 28.02.2011

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the Principal Private Secretary grade of CSSS.

GERVASIS KULAMPALLIL, Under Secy.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 7th February 2011

No. A.32012/1/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri N. Radhakrishnan, Under Secretary (CSS) as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Civil Aviation in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 01.02.2011 (FN),

consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010, in pursuance to DOPT's O.M. No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 01.02.2011.

SHUBHA THAKUR, Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd February 2011

No. E(GP)91/1/59—The President is pleased to appoint Shri B. S. H. Rao, a Group 'B' officer of Personnel Department of South Eastern Railway to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) substantively w.e.f. 01.11.1985 on that Railway.

This is in partial modification of the earlier notification of even number dated 10.02.1993 vide which Shri B. S. H. Rao was promoted to Group 'A'/Junior Scale of IRPS w.e.f. 23.07.1992.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 7th February 2011

No. E(GP)2008/3/7—The President is pleased to appoint the undermentioned Group B officer of Stores Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 25.03.2010, on the Railway mentioned below :—

Panel for 2009-2010

Southern Railway

Shri K. S. Bhaskar

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 10th February 2011

No. E(GP)2008/3/8—The President is pleased to appoint the undermentioned 52 Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS) with effect from 30.12.2010 on the Railways mentioned below :—

Panel for 2009-10

Name of the Officer

S/Shri

Central Railway

1. Phillip Verghese

2. L. M. Sayyad

3. S. D. Saxena

4. George Eapen

5. S. K. Mishra

6. K. R. Balasubramaniam

7. S. Ravichandran

8. K. P. Krishnan

9. N. G. Borikar (ST)

10. J. T. Bokde (ST)

11. A. K. Tiwari

12. Jagdish Prasad (SC) (Promoted against SC vacancy)

13. E. G. Sadavarte (ST) (Promoted against ST vacancy)

Eastern Railway

1. Ajay Kumar Sahu

2. Alokesh Roy

3. Biswajit Chakraborty

4. Uday Shankar Mondal (ST)

East Central Railway

1. Anil Kumar Bansal

2. Anil Kumar Singh

3. Raj Kumar (SC) (Promoted against SC vacancy)

North Eastern Railway

1. N. N. Das (SC) (Promoted against SC vacancy)

2. Jawahar Ram (SC) (Promoted against SC vacancy)

3. S. K. Srivastava

Northeast Frontier Railway

1. Amal Kr. Sinha

Northern Railway

1. D. S. Bhatia

2. Sant Ram

3. Yogesh Kumar

4. S. K. Mishra

5. A. K. Bhatnagar

6. Prithvi Ram (SC) (Promoted against SC vacancy)

South Central Railway

1. K. Ratnakar Rao

2. M. V. Krishnan

3. K. Laxminarayana Reddy

4. U. Satyam Babu (ST)

5. B. N. Victor Babu (ST)

South East Central Railway

1. J. N. Sabat

2. S. N. Mukherjee

Southern Railway

1. Sanjeeva Varaparasad (ST)

2. M. Narayana Swamy

3. A. Sundar (ST)

4. Govindapparaj (ST) (Promoted against ST vacancy)

5. George John (ST) (Promoted against ST vacancy)

South Western Railway

1. T. P. Ganesha (ST)

West Central Railway

1. A. S. Chandel

Western Railway

1. D. N. Yadav

2. Nair G. Mohan

3. M. L. Gadaria

4. Revat Singh

5. R. S. Chatwal

6. S. S. Agarwal

7. Sharat Kumar (SC)

8. P. K. Sharma

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 15th February 2011

No. ERB-I/2010/2/77—The President is pleased to appoint Shri Arunendra Kumar, HAG/IRSME, Additional General Manager, Northern Railway as Additional Member (Production Units), Railway Board on promotion in Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from afternoon of 31.12.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2010/2/54—The President is pleased to appoint Shri B. N. Rajasekhar, HAG/IRSME, Adviser (Planning), Railway Board as Additional Member (Planning), Railway Board on promotion in Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 30.12.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 7th February 2011

No. A.32014/1/2009-E.I(B)—Consequent upon inclusion of her name in the Select List 2008 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/25/2010-CS.II(A) dated 20.12.2010, the President is pleased to appoint Smt. Sulieha Purushothaman, CSSS officer of Planning Commission as Private Secretary on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 02.02.2011 (FN).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 21st January 2011

No. 6/90/85-Admn.I—The President is pleased to give in-situ promotion to Shri N. Bagara Raju as Scientist "E" in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on the personal basis under the Flexible Complementing Scheme (FCS) in the Ministry of New & Renewable Energy with effect from the forenoon of 21st January 2011 and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th February 2011

No. 2/3/2004-E-III(FBPE)—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Pani, as Principal in the Pay Band-3 (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the FBPHSS, Farakka Barrage Project, Ministry of Water Resources, with effect from the forenoon of 21st January, 2011, until further orders.

N. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th January 2011

No. A-12025/3/2008-IIS—On the basis of the result of the Civil Services Examination, 2009, the President is pleased to appoint Shri Samrat Bandopadhyay (Rank No. 598) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 30.08.2010.

2. Shri Samrat Bandopadhyay will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director (Media & Communication) in the Press Information Bureau, New Delhi until further orders.

RENU ARORA, Under Secy.